

DEPARTMENT OF COMMERCE

COURSE CURRICULUM & MARKING SCHEME

B.COM I SEMESTER

(Based on Choice Based Credit System)

SESSION: 2025-26



**GOVT. V.Y.T. PG AUTONOMOUS COLLEGE,
DURG, 4910001(C.G.)**

(Former Name - Govt. Arts & Science College, Durg)

NAAAC Accredited

Grade A+, College with CPE -Phase III (UGC), STAR COLLEGE
(DBT) Phone: 0788-2212030

चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम(2024-28)

वाणिज्य संकाय

कोर्स कैरिकुलम

खंड-अ:परिचय			
पाठ्यक्रम: बैचलर इन कॉमर्स (सर्टिफिकेट / डिप्लोमा / डिग्री / ऑनर्स)		सेमेस्टर-प्रथम	सत्र 2024-25
1	कोर्स कोड	सीओएससी-01	
2	कोर्स शीर्षक	लेखांकन के मूल तत्व	
3	कोर्स प्रकार	डिसीप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स(सीओएससी)	
4	पूर्व अपेक्षित (यदि हो)	आवश्यकतानुरूप	
5	कोर्स लर्निंग आउटकम (CLO)	- वित्तीय निर्णय लेने की प्रक्रिया और तरीकों की व्याख्या करें। - विभिन्न कॉर्पोरेट वित्तीय समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त वित्तीय सिद्धांत और तकनीकों की पहचान करें। - आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों की मूलभूत अवधारणाओं को पहचानें और लेखांकन की चुनौतियों को भी पहचान सकते हैं। - पूंजी और राजस्व अवधारणा को वर्गीकृत करें, वित्तीय लेखांकन के बुनियादी सिद्धांतों, अवधारणाओं और परंपराओं को समझें। - फर्म के अंतिम खातों का निर्माण करना और कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रणाली के विभिन्न पहलुओं को लगाना।	
6	क्रेडिट महत्व	4 क्रेडिट	क्रेडिट = 15घंटे का अध्ययन/प्रशिक्षण/प्रवेक्षण
7	कुल अंक	अधिकतम पूर्णांक-100 अंक	उत्तीर्णांक-40
खण्ड-ब: कोर्स की विषयवस्तु			
कुल अध्यापन कालखंड (01 घंटा प्रति कालखंड)- 60 कालखंड (60घंटे)			
इकाई	प्रसंग (विषय वस्तु)		कालखंड की संख्या
1	लेखांकन:एक परिचय:विकास,परिभाषा, आवश्यकताएँ, उद्देश्य,लेखांकन की शाखाएँ, बुनियादी लेखांकन सिद्धांत, अवधारणा और परंपराएँ, लेखांकन मानक:राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय,भारत में लेखांकन पेशे के जनक का संक्षिप्त इतिहास और योगदान : श्री के.एस.अय्यर (1859-1940)		15
2	लेखांकन लेनदेन:एकल और दोहरा लेखा प्रविष्टि प्रणाली की अवधारणा,मूल अभिलेखों की पुस्तके जर्नल,खाता बही,जर्नल रोकड़ पुस्तक का उपविभाजन (जी.एस.टी. लेनदेन सहित) और परीक्षा सूची,मूल्य ह्रास लेखांकन:मूल्यह्रास ज्ञात करने की विभिन्न विधियाँ,विभिन्न संपत्तियों का मूल्यह्रास.		15
3	अंतिम लेखा:विनिर्माण खाता,व्यापर खाता,लाभ-हानि खाता,स्थिति विवरण विभिन्न प्रावधानों और संचय के साथ समायोजन प्रविष्टियों,त्रुटियों का सुधार:त्रुटियों का वर्गीकरण,त्रुटियों की पहचान,उचत खाता, लाभ पर प्रभाव सहित.		15
4	कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रणाली:सैद्धांतिक अनुप्रयोग एवं व्यावहारिक अनुप्रयोग (किसी भी लोकप्रिय लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके),व्हाऊचर का निर्माण, लेन-देन की रिकॉर्डिंग,रिपोर्ट तैयार करना,रोकड़ बही,बैंक बही, बहीखाता,परीक्षा सूची(ट्रायल बैलेंस),लाभ-हानि खाता,स्थिति विवरण(बैलेंस सीट) चुनना और किसी कंपनी के खाते को बंद करना,किसी कंपनी के डेटा का बैकअप लेना और पुनर्स्थापित करना.		15
प्रमुख शब्द	लेखांकन, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, योगदान,दोहरी प्रविष्टि प्रणाली, जर्नल, मूल्यह्रास, अंतिम खाते, सुधार, सस्पेंस खाता, कम्प्यूटरीकृत लेखांकन.		

हस्ताक्षर-सदस्य एवं संयोजक (केन्द्रीय अध्ययन मंडल):-

[Handwritten signatures and dates]

खंड-स: अध्ययन स्रोत/साधन		
पाठ्य पुस्तक,संदर्भग्रंथ एवं अन्य		
अनुशंसित ग्रंथ:-		
1.शुक्ला एस.एम.; वित्तीय लेखांकन; साहित्य भवन प्रकाशन; आगरा।(हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) 2.करीम और खन्ना; वित्तीय लेखांकन; एसबीपीडी पब्लिशिंग हाउस; आगरा।(हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) 3.अग्रवाल और मंगल; वित्तीय लेखांकन यूनिवर्सल प्रकाशन।(हिन्दी माध्यम) नोट: शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तकों के नवीनतम संस्करण का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।		
संदर्भग्रंथ:		
1.मोंगा जे.आर. आहूजा गिरीश और सहगल अशोक: वित्तीय लेखांकन; मयूर पेपर बैक, नोएडा। 2.शुक्ला एम.सी. शेख टी.एस. और गुप्ता, एस.सी.: उन्नत खाते; एस चंद एंड कंपनी, नई दिल्ली। 3.सिंह बी.के. वित्तीय लेखांकन; विज्डम पब्लिशिंग हाउस, वाराणसी। 4.गुप्ता, आर.एल. और राधास्वामी। एम; वित्तीय लेखांकन सुल्तान चंद एंड संस, नई दिल्ली।		
ऑनलाईन स्रोत:- ई-स्रोत/ई-पुस्तक/ई-पोर्टल:		
https://indianaccounting.org/econtent book finance. https://onlinecourses.swayam2.ac.in/nou24_cm02/ https://youtu.be/v-djL7SPw4c?si=qRK_dBVZ2lob99EV https://onlinecourses.swayam2.ac.in/aic20_sp60/preview https://youtu.be/v-djL7SPw4c?si=qRK_dBVZ2lob99		
खंड-द: आंकलन और मूल्यांकन		
अनुशंसित सतत् मूल्यांकन प्रविधि:		
पूर्णांक -100 अंक	सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA) : 30 अंक अंत सेमेस्टर परीक्षा (ESE) : 70 अंक	
सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA): (कोर्स शिक्षक द्वारा)	आंतरिक जॉय परीक्षा/प्रश्नोत्तरी परीक्षा(दो): 20+20 कार्यभार/सेमीनार+उपस्थिति:- 10 कुल अंक- 30	दोनों आंतरिक परीक्षा उच्चतर प्राप्तांक+कार्यभार में प्राप्तांक- 30 अंक के परिप्रेक्ष्य में अधिग्रहित किया जावेगा.
अंत सेमेस्टर परीक्षा (ESE)	दो खंड- अ तथा ब खंड-अ:- प्र.01-वस्तुनिष्ठ प्रश्न-10X1=10 अंक, एवं प्र.02- लघुउत्तरीय प्रश्न- 5X4=20 अंक खंड-ब:- वर्णात्मक प्रकार के प्रश्न-2 प्रति इकाई में से 1-1 प्रश्न हल करना-4X10=40 अंक	

हस्ताक्षर-सदस्य एवं संयोजक (केन्द्रीय अध्ययन मंडल):-

10/06/24
 10/06/24
 10/06/24
 10/06/24
 10/06/24
 10/06/24

FOUR YEAR UNDERGRADUATE PROGRAM- 2024-28

FACULTY OF COMMERCE COURSE CURRICULUM

PART-A : Introduction

Program : Bachelor in Commerce (Certificate/Diploma/Degree/Honors)		Semester- I	Session : 2024-25
1	Course Code	COSC-01	
2	Course Title	Fundamental of Accounting	
3	Course Type	Discipline Specific Core Course(COSC)	
4	Pre-requisite (if any)	As per program	
5	Course Learning Outcomes (CLO)	• Explain the process and methods of financial decision making. • Identify appropriate financial theory and techniques to solve various corporate financial problems. • Identify fundamental concepts of generally accepted accounting principles and can also Identify challenges of accounting • Classify capital and revenue concept, understand basic principles, concepts and conventions of financial accounting • Construct final accounts of firm and apply various aspects of computerised accounting system.	
6	Credit Value	4 Credits	Credit= 15 Hours-learning & Observation
7	Total Marks	Max. Marks :100	Minimum Passing Marks :40

PART - B : Content of the Course

Total No. of Teaching-learning Periods (01 Hr. per period)-60 periods (60 Hours)

Unit	Topics (Course Contents)	No. of Period
I	Accounting: An introduction: Development, Definition, Needs, Objectives, Branches of Accounting, Basic Accounting Principles Concept and Conventions. Accounting standard: National & International. Brief History & Contribution of Father of the accountancy profession in India : Shree K.S. Aiyer (1859-1940)	15
II	Accounting Transaction: Concept of Single and Double entry system, Books of original Records, journal, ledger, Sub division of Journal cash book (including GST Transaction) and Trial balance. Depreciation accounting; methods of recording depreciation. Depreciation of different assets.	15
III	Final Accounts: Manufacturing Accounts, Trading Accounts, Profit Loss Account, Balance Sheet, Adjustment Entries with various provision and reserves. Rectifications of Errors: Classification of errors, location of errors, Suspense account, Effect on profit.	15
IV	Computerized Accounting System- Theoretical application, Practical Application (using any popular accounting software); Creation of Vouchers; recording transactions; preparing reports, cash book, bank book, ledger accounts, Trial balance, Profit and loss account, Balance Sheet. Selecting and shutting a Company, Backup and Restore data of a Company.	15
Key Words	Accounting, National, International, Contribution, Double Entry System, Journal, Depreciation, Final Accounts, Rectification, Suspense Account, Computerized Accounting.	

Signature of Convener & Members (CBoS)

[Handwritten signatures of Convener and Members]

PART-C: Learning Resource

Text Books, Reference Books and Others

Text Books Recommended:-

1. Shukla S.M.; Financial Accounting ; Sahitya Bhawan Publication ; Agra. (Hindi & English Medium)
2. Karim & Khanuja; Financial Accounting; SBPD Publishing House; Agra.(Hindi & English Medium)
3. Agrawal & Mangal; Financial Accounting Universal Publication (Hindi Medium)

Note: Learners are advised to use latest edition of text books.

Reference Books:

1. Gupta, R.L. and Radhaswamy. M; Financial Accounting Sultan Chand and Sons , New Delhi.
2. Monga J.R. Ahuja Girish and Sehgal Ashok: Financial Accounting ; Mayur Paper Back, Noida.
3. Shukla M.C. Grewal T.S. and Gupta , S.C. : Advanced Accounts; S. Chand & Co. New Delhi.
4. Singh B.K. Financial Accounting ; Wisdom Publishing House, Varanasi.

On line Resources : * e-Resources/e-books and e-learning portals:

https://indianaccounting.org/econtent_book_finance.

https://onlinecourses.swayam2.ac.in/nou24_cm02/

https://youtu.be/v-djL7SPw4c?si=qRK_dBVZ2lob99EV

https://onlinecourses.swayam2.ac.in/aic20_sp60/preview

https://youtu.be/v-djL7SPw4c?si=qRK_dBVZ2lob99

PART -D: Assessment and Evaluation

Suggested Continuous Evaluation Methods: Maximum Marks:100 Marks

Continuous Internal Assessment (CIA) :

30 Marks

End Semester Exam. (ESE) :

70 Marks

Continuous Internal Assessment(CIA) : (By Course Teacher)	Internal Test/Quiz-(2) : 20 & 20 (Assignment/Seminar): 10 Total Marks - 30	Highest Marks out of the Two Test/Quiz + obtained marks in Assignment shall be considered against 30 Marks
--	--	---

End Semester
Exam.(ESE):

Two Section :- A & B

Section A: Q.1-Objective-10x1=10Marks; Q.2-Short Answer type- 5x4= 20 Marks

Section B : Descriptive answer type qts. 1 out of 2 from each unit-4x10=40 Marks

Name and Signature of Convener & Members of (CBOS) :

[Handwritten signatures and dates]
15/6/24
10/06/24

चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम(2024-28)

वाणिज्य संकाय

कोर्स कैरिकुलम

खंड-अ:परिचय			
पाठ्यक्रम: बैचलर इन कॉमर्स (सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री/ऑनर्स)		सेमेस्टर-प्रथम	सत्र 2024-25
1	कोर्स कोड	सीओएससी-02	
2	कोर्स शीर्षक	व्यावसायिक सन्नियम	
3	कोर्स प्रकार	डिसीप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स(सीओएससी)	
4	पूर्व अपेक्षित (यदि हो)	आवश्यकतानुरूप	
5	कोर्स लर्निंग आउटकम (CLO)	- व्यापार कानून की बुनियादी अवधारणाओं, नियमों और प्रावधानों का प्रदर्शन करें। - विभिन्न प्रकार के अनुबंधों को वर्गीकृत करें और संबंधित केस अध्ययनों का वर्णन करें। - माल की बिक्री के अनुबंध को नियंत्रित करने वाले विनियमन की व्याख्या करें। - साझेदारी को नियंत्रित करने वाले कानूनों और लेनदेन के कानूनी परिणामों और साझेदारी के संबंध में अन्य कार्यों पर चर्चा करें, और सीमित देयता साझेदारी को नियंत्रित करने वाले संविदात्मक दायित्वों और प्रावधानों की जांच करें। - उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करें।	
6	क्रेडिट महत्व	4 क्रेडिट	क्रेडिट=15घंटे का अध्ययन/प्रशिक्षण/प्रवेक्षण
7	कुल अंक	अधिकतम पूर्णांक-100 अंक	उत्तीर्णांक-40
खण्ड-ब: कोर्स की विषयवस्तु			
कुल अध्यापन कालखंड (01 घंटा प्रति कालखंड)-60 कालखंड (60घंटे)			
इकाई	प्रसंग (विषय वस्तु)		कालखंड की संख्या
1	अनुबन्ध अधिनियम(1872) : अनुबन्ध के प्रकार एवं वर्गीकरण, प्रस्ताव और स्वीकृति, पक्षकारों की अनुबन्ध करने की क्षमता, स्वतन्त्र सहमति, प्रतिफल, उद्देश्य की वैधता, व्यर्थ घोषित ठहराव,अनुबंधों का निष्पादन,अनुबंधों का खंडन,अनुबंध खंडन के लिए उपचार.		15
2	विशिष्ट अनुबन्ध : हानि रक्षा (क्षतिपूर्ति) तथाप्रत्याभूति, निक्षेप तथा गिरवी, एजेन्सी (अभिकरण)के अनुबन्ध-अर्थ, एजेन्सी निर्माण के प्रकार, एजेन्ट के प्रकार, एक एजेन्ट का व्यक्तिगत दायित्व एवं एजेन्सी का समापन।		15
3	वस्तुविक्रय अधिनियम (1930) :परिभाषा, विक्रय एवं विक्रय के लिये ठहराव, वस्तुओं के प्रकार, शर्त और वारंटी, गैर-मालिकों द्वारा बिक्री, अदत्त विक्रेता, CIF,FOB और Ex-Ship अनुबन्ध। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019		15
4	विनिमय साध्य विलेख अधिनियम (1881):विनिमय साध्य विलेख की परिभाषाएं, विशेषताएं,प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय विपत्र, धनादेश (चेक), धारक एवं यथाविधिधारी, चेक का रेखांकन, रेखांकन के प्रकार, पराक्रमण, विनिमय साध्य विलेख का अनादरण व मुक्ति, सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम-2008		15
प्रमुख शब्द	अनुबंध का कानून, विशेष अनुबंध, माल की बिक्री अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, परक्राम्य लिखत अधिनियम, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम।		

हस्ताक्षर-सदस्य एवं संयोजक (केन्द्रीय अध्ययन मंडल):-

10/06/24

10/06/24

shesha

खंड-सः अध्ययन स्रोत/साधन

पाठ्यपुस्तक,संदर्भग्रंथ एवं अन्य

अनुशंसित ग्रंथ:-

- 1.शुक्ल एवं सहाय, साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा (हिन्दी माध्यम)
 - 2.प्रो.आर.सी.अग्रवाल,एसबीपीडी प्रकाशन,आगरा (हिन्दी मीडियम)
 - 3.डॉ.ओ.पी.गुप्ता,एसबीपीडी प्रकाशन,आगरा (अंग्रेजी माध्यम)
 - 4.डॉ. जी.के. वार्ष्णेय: बिजनेस लॉ; साहित्य भवन प्रकाशन आगरा (अंग्रेजी माध्यम)
 - 5.डॉ.बी.के.सिंह और डॉ.ए.तिवारी, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एसबीपीडी प्रकाशन (हिंदी माध्यम)
 - 6.आर.एल.नौलखा, बिजनेस लॉ, रमेश बुक डिपो, जयपुर (हिन्दी मीडियम)
 - 7.डॉ. अरुण कुमार गंगोले, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रामप्रसाद एंड संस, (हिंदी मीडियम)
- नोट: शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तकों के नवीनतम संस्करण का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

संदर्भग्रंथ:

- 1.कुच्छल एम.सी. बिजनेस लॉ: विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली। (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम)
- 2.कपूर एन.डी.: बिजनेस लॉ; सुल्तानचंद एंड संस, नई दिल्ली। (अंग्रेजी माध्यम)
- 3.चंदा पी.आर.: बिजनेस लॉ; गलगोटिया नई दिल्ली। (अंग्रेजी माध्यम)

ऑनलाईन स्रोत:- ई-स्रोत/ई-पुस्तक/ई-पोर्टल:

https://onlinecourses.swayam2.ac.in/nou24_cm11/preview

<https://www.toppr.com/guides/business-law/>

<https://www.youtube.com/watch?v=BZshald0IUo>

<https://www.youtube.com/watch?v=HrF9D2V8Jxk>

<https://www.youtube.com/watch?v=ol2BXgF-P48>

खंड-दः आंकलन और मूल्यांकन

अनुशंसित सतत् मूल्यांकन प्रविधि:

पूर्णांक -100 अंक	सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA) : 30 अंक अंत सेमेस्टर परीक्षा (ESE) : 70 अंक	
सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA): (कोर्स शिक्षक द्वारा)	आंतरिक जांच परीक्षा/प्रश्नोत्तरी परीक्षा(दो): 20+20 कार्यभार/सेमीनार+उपस्थिति:- 10 कुल अंक- 30	दोनों आंतरिक परीक्षा उच्चतर प्राप्तांक+कार्यभार में प्राप्तांक- 30 अंक के परिप्रेक्ष्य में अधिग्रहित किया जावेगा.
अंत सेमेस्टर परीक्षा (ESE)	दो खंड- अ तथा ब खंड-अ: प्र.01-वस्तुनिष्ठ प्रश्न-10X1=10 अंक, एवं प्र.02- लघुउत्तरीय प्रश्न- 5X4=20 अंक खंड-ब: वर्णात्मक प्रकार के प्रश्न- 2 प्रति इकाई में से 1-1 प्रश्न हल करना-4X10=40 अंक	

हस्ताक्षर-सदस्य एवं संयोजक (केन्द्रीय अध्ययन मंडल):-

10/06/24

10/06/24

Shashi

FOUR YEAR UNDERGRADUATE PROGRAM-2024-28

FACULTY OF COMMERCE COURSE CURRICULUM

COURSE CURRICULUM

PART-A : Introduction				
Program : Bachelor in Commerce (Certificate/Diploma/Degree /Honors		Semester- I	Session : 2024-25	
1	Course Code	COSC-02		
2	Course Title	Business Law		
3	Course Type	Discipline Specific Core Course (COSC)		
4	Pre-requisite (if any)	As per program		
5	Course Learning Outcomes (CLO)	• Demonstrate the basic concepts terms & provisions of business law. • Classify various types of contract and illustrate the related case studies. • Interpret the regulation governing the Contract of Sale of Goods. • Discuss the laws governing partnership and legal consequences of the transactions and other actions in relation with the partnership, and examine contractual obligations and provisions governing limited liability partnership. • Explain the significant provisions of the Negotiable Instrument Act and provisions of the Consumer Protection Act to protect the interest of the consumers.		
6	Credit Value	4 Credits	Credit= 15 Hours-learning & Observation	
7	Total Marks 100	Max. Marks : 100	Minimum Passing Marks : 40	
PART - B : Content of the Course				
Total No. of Teaching-learning Periods (01 Hr. per period)-60 Periods(60 Hours)				
Unit	Topics (Course Contents)			No. of Period
I	Law of contract (1872): Nature of contract classification; offer and acceptance, Capacity of parties to contract, free consent, considerations, Agreement declared void, Performance of Contract, and Discharge of Contract, Remedy for Breach of Contract.			15
II	Special contracts: Indemnity &; Guarantee, Bailment and pledge; Law of Agency- Meaning, Modes of creating Agency, Types of Agents, Personal Liability of an Agent and Termination of Agency.			15
III	Sale of Goods Act (1930): Definition, Sale &; Agreement to sale, Types of Goods, Conditions & Warranties, Sale by Non-owners, Unpaid Seller, CIF, FOB and Ex-Ship Contracts. The Consumer Protection Act 2019			15
IV	Negotiable Instrument Act 1881: Negotiable Instrument Act (1881) Definition of Negotiable instrument; Feature; promissory note; Bill of exchange cheque; Holder and holder in the due course; crossing of a cheque, types of crossing; Negotiation; dishonor and discharge of negotiable instrument, Limited Liabilities Partnership Act 2008.			15
Key Words	Law of Contract, Special Contract, Sale of Goods Act, Consumer Protection Act, Negotiable Instrument Act, Limited Liabilities Partnership Act.			

12.6.24

Signature of Convener & Members (CBoS):

PART-C: Learning Resources

Text Books, Reference Books and Others

Text Books Recommended:-

- 1.Shukla & Sahaya, Sahitya Bhawan Publication, Agra(Hindi Medium)
- 2.Prof.R.C.Agrawal,SBPD Publication, Agra (HindiMedium)
- 3.Dr.O.P.Gupta,SBPD Publication, Agra (English Medium)
4. Dr. G.K. Varshney: Business Law; Sahitya Bhawan Publication Agra (English Medium)
- 5.Dr.B.K.Singh & Dr.A.Tiwari, Business Regulatory Framework, SBPD Publications (Hindi Medium)
- 6.R.L.Naulakha,Business Law, Ramesh Book Depo, Jaipur (Hindi Medium)
- 7.Dr.Arun Kumar Gangele, Business Regularatory Framework, Ramprasad & Sons,(Hindi Medium)

Note: Learners are advised to use latest edition of text books.

Reference Books:

1. Kuchal M.C. Business Law: Vikas publishing house, Delhi. (Hindi & English Medium)
2. Kapoor N.D.: Business Law; Sultanchand & Sons, New Delhi. (English Medium)
3. Chandha P.R.: Business Law; Galgotia New Delhi. (English Medium)

On line Resources : * e-Resources/e-books and e-learning portals:

https://onlinecourses.swayam2.ac.in/nou24_cm11/preview

<https://www.toppr.com/guides/business-law/>

<https://www.youtube.com/watch?v=BZshald0IUo>

<https://www.youtube.com/watch?v=HrF9D2V8Ixx>

<https://www.youtube.com/watch?v=ol2BXgF-P48>

PART-D:Assessment and Evaluation

Suggested Continuous Evaluation Methods: Maximum Marks	100 Marks
---	------------------

Continuous Internal Assessment (CIA) :	30 Marks
---	-----------------

End Semester Exam. (ESE) :	70 Marks
-----------------------------------	-----------------

Continuous Internal Assessment(CIA) : (By Course Teacher)	Internal Test/Quiz-(2) : 20 & 20 (Assignment/Seminar)- 10 Total Marks - 30	Better Marks out of the Two Test/Quiz + obtained marks in Assignment shall be considered against 30 Marks
End Semester Exam.(ESE):	Two Section :- A & B Section A: Q.1.Objective 10x1=10Marks ; Q.2.Short Answer type- 5x4=20 Marks Section B : Descriptive answer type qts., 1 out of 2 from each unit- 4x10=40 Marks	

Name and Signature of Convener & Members of (CBoS) :





of Convener & Members of (CBOS) :

चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम(2024-28)

वाणिज्य संकाय

कोर्स कॅरिकुलम

खंड-अ:परिचय			
पाठ्यक्रम: बैचलर इन कॉमर्स (सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री/ऑनर्स)		सेमेस्टर-प्रथम	सत्र 2024-25
1	कोर्स कोड	सीओएससी-03	
2	कोर्स शीर्षक	व्यावसायिक अर्थशास्त्र	
3	कोर्स प्रकार	डिसीप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स(सीओएससी)	
4	पूर्व अपेक्षित (यदि हो)	आवश्यकतानुरूप	
5	कोर्स लर्निंग आउटकम (CLO)	- प्रदर्शित करें कि विभिन्न आर्थिक प्रणालियाँ कैसे कार्य करती हैं और विभिन्न आर्थिक निर्णयों के निहितार्थों का मूल्यांकन करें। - समझें कि उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करके अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास कैसे करते हैं। - उत्पादन में प्रयुक्त इनपुट और परिणामी आउटपुट और लागत के बीच संबंध का विश्लेषण करें। - बाजार तंत्र और फर्मों के व्यवहार और विभिन्न बाजार स्थितियों के प्रति फर्मों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण और व्याख्या करना। - विभिन्न बाजार स्थितियों में मूल्य निर्धारण के विभिन्न पहलुओं की खोज करें।	
6	क्रेडिट महत्व	4 क्रेडिट	क्रेडिट=15घंटे का अध्ययन/प्रशिक्षण/प्रवेक्षण
7	कुल अंक	अधिकतम पूर्णांक-100 अंक	उत्तीर्णांक-40
खण्ड-ब: कोर्स की विषयवस्तु			
कुल अध्यापन कालखंड (01 घंटा प्रति कालखंड)-60 कालखंड (60घंटे)			
इकाई	प्रसंग (विषय वस्तु)		कालखंड की संख्या
1	भारतीय अर्थशास्त्रियों का संक्षिप्त परिचय एवं प्रमुख अशंदान: कौटिल्य, दादा भाई नौरेजी, गोपाल कृष्ण गोखले,डॉ.गाडगिल,व्ही.के.आर.राव एवं अर्मत्य सेन. व्यावसायिक अर्थशास्त्र: अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, प्रकृतिऔर क्षेत्र, व्यवसायिक अर्थशास्त्री की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व,बाजार की मांग का विश्लेषण: मांग का अर्थ एवं मांग के निर्धारक तत्व, मांग में परिवर्तन, मांग का फलन, मांग का नियम, मांग के प्रकार और मांग के नियम का अपवाद।		15
2	उपभोक्ता व्यवहार और मांग की लोच: मांग की उपयोगिता का विश्लेषण, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और उपभोक्ता की बचत, उदासीनता वक्र तकनीक, कीमत रेखा या बजट रेखा, मांग की लोच की अवधारणाएं, महत्व एवं उनके प्रकार, लोच की विभिन्न अवधारणा की गणना, मांग की कीमत लोच को मापने की विधियाँ.		15
3	उत्पादन विश्लेषण : आपूर्ति का अर्थ और आपूर्ति के फलन, स्टॉक और प्रवाह की अवधारणा, आपूर्ति के निर्धारक, आपूर्ति का नियम, आपूर्ति में परिवर्तन, उत्पादन फलन: (अ) परिवर्तनशील अनुपातों का नियम (ब) पैमाने के प्रतिफल के नियम, पैमाने की बचते और विसंगतियां (हानियाँ)		15
4	बाजार संरचना और फर्म एवं उद्योग का संतुलन: अर्थ, वर्गीकरण एवं बाजार के प्रकार, बाजार संरचना-पूर्ण एवं अपूर्ण प्रतियोगिता के अनुरूप, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत और उत्पादन का निर्धारण, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार,विभेदात्मक एकाधिकार,एकाधिकृत प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकार के अंतर्गत.		15
प्रमुख शब्द	व्यावसायिक अर्थशास्त्र, मांग, लोच, उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादन विश्लेषण बाजार, बाजार आकृति विज्ञान और फर्म और उद्योग का संतुलन		

हस्ताक्षर-सदस्य एवं संयोजक (केन्द्रीय अध्ययन मंडल):-

खंड-स: अध्ययन स्रोत/साधन पाठ्यपुस्तक,संदर्भग्रंथ एवं अन्य अनुशंसित ग्रंथ:- 1. डॉ. वी.सी. सिन्हा; एसबीपीडी पब्लिशिंग हाउस, आगरा। (हिन्दी अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम) 2. डॉ. जय प्रकाश मिश्र, साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा। (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) 3. एम. एल. झिंगन, वृंदा प्रकाशन, दिल्ली। (अंग्रेजी और हिंदी माध्यम) 4. डॉ. जे.के. जैन, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी: भोपाल। (हिन्दी माध्यम) नोट: शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तकों के नवीनतम संस्करण का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।		
संदर्भग्रंथ: 1. आहूजा, एच. एल नई दिल्ली: सुल्तान चंद पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 2. कौट्सॉयनिस, ए. लंदन: पालग्रेव मैकमिलन। 3. चतुर्वेदी, डी. डी., और गुप्ता, एस. एल. इंटरनेशनल बुक हाउस प्रा. लिमिटेड. नई दिल्ली: 4. कैनेडी, एम.जे., हिमालय पब्लिशिंग हाउस। मुंबई:		
ऑनलाइन स्रोत:- ई-स्रोत/ई-पुस्तक/ई-पोर्टल: https://onlinecourses.swayam2.ac.in/imb24_mg06/preview https://www.busesseconomics.in/ https://www.wallstreetmojo.com/business-economics/ https://www.youtube.com/playlist?list=PLgC10_Xv-BGirAqOr-hU8e-N_Nz0UpqI- https://www.youtube.com/watch?v=9kai9P-KeNo study material of ICAI: www.icai.org. https://www.icsi.edu/media/website/Business%20Economic https://www.busesseconomics.com/		
खंड-द: आंकलन और मूल्यांकन अनुशंसित सतत् मूल्यांकन प्रविधि:		
पूर्णांक - 100 अंक	सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA) : 30 अंक अंत सेमेस्टर परीक्षा (ESE) : 70 अंक	
सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA): (कोर्स शिक्षक द्वारा)	आंतरिक जॉच परीक्षा/प्रश्नोत्तरी परीक्षा(दो): 20+20 कार्यभार/सेमीनार+उपस्थिति:- 10 कुल अंक- 30	दोनों आंतरिक परीक्षा उच्चतर प्राप्तांक+कार्यभार में प्राप्तांक- 30 अंक के परिप्रेक्ष्य में अधिग्रहित किया जावेगा.
अंत सेमेस्टर परीक्षा: (ESE)	दो खंड- अ तथा ब खंड-अ- प्र.01-वस्तुनिष्ठ प्रश्न-10X1=10 अंक, एवं प्र.02- लघुउत्तरीय प्रश्न- 5X4=20 अंक खंड-ब- वर्णात्मक प्रकार के प्रश्न 2-प्रति इकाई में से 1-1 प्रश्न हल करना-4X10=40 अंक	

हस्ताक्षर-सदस्य एवं संयोजक (केन्द्रीय अध्ययन मंडल):—

योजक (केन्द्रीय अध्ययन मंडल):-

FACULTY OF COMMERCE COURSE CURRICULUM

PART-A : Introduction			
Program : Bachelor in Commerce (Certificate/Diploma/Degree /Honors)		Semester- I	Session : 2024-25
1	Course Code	COSC-03	
2	Course Title	Business Economics	
3	Course Type	Discipline Specific Core Course (COSC)	
4	Pre-requisite (if any)	As per program	
5	Course Learning Outcomes (CLO)	• Demonstrate how different economic systems function and evaluate implications of various economic decisions. • Understand how consumers try to maximize their satisfaction by spending on different goods. • Analyze the relationship between inputs used in production and the resulting outputs and costs. • Analyze and interpret market mechanism and behaviour of firms and response of firms to different market situations. • Discover various facets of pricing under different market situations.	
6	Credit Value	4 Credits	Credit= 15 Hours-learning & Observation
7	Total Marks	Max. Marks :100	Minimum Passing Marks : 40

Total No. of Teaching-learning Periods (01 Hr. per period)-60 Periods (60 Hours)

Unit	Topics (Course Contents)	No. of Period
I	Brief history and Contribution of Indian Economists: Kautilya, Dada Bhai Naurogi, Gopal Krishna Gokhle, Dr. Gadgil, V K R V Rao, Amartya Sen. Business Economics: Meaning, Definition, objective and nature & Scope, Role and Responsibilities of a business Economist. Market Demand Analysis: Meaning of Demand and Determinants of Demand, Changes in Demand, Demand Function Law of Demand, Types of Demand and Exceptions of Law of Demand	15
II	Consumer Behaviour and Elasticity of Demand: Utility Analysis of Demand, Law of Diminishing marginal utility & Consumer Surplus, Indifference Curve technique, Price Line or Budget Line , Concept of Elasticity of Demand, Importance, Types, Calculations of different concepts of Elasticity, Methods of measurement of Price Elasticity of demand	15
III	Production Analysis: Meaning of Supply and Supply function, Concepts of Stock and Flow, Determinants of Supply, Law of Supply, Changes in Supply, Production Function: a) Law of Variable Proportions b) Law of Returns to Scale, Economies and Diseconomies of Scale	15
IV	Market Morphology and Equilibrium of the Firm and Industry: Meaning, Classification and Types of Market, Market structure formed on the basis of perfect and imperfect competition, Price and output determination under Perfect Competition, monopoly, Discrimination Monopoly, Monopolistic Competition, Oligopoly	15
Key Words	Business Economics, Demand, Elasticity, Consumer Behaviour, Production Analysis, Market Structure, Equilibrium of Firm & Industry.	

[illegible]

चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम(2024-28)

वाणिज्य संकाय

कोर्स कैरिकुलम

खंड-अ परिचय		
पाठ्यक्रम: बैचलर इन कॉमर्स (डिप्लोमा / डिग्री / ऑनर्स)		सेमेस्टर-तृतीय
		सत्र 2024-25
1	कोर्स कोड	सीओवीएसी-02
2	कोर्स शीर्षक	स्कंध बाजार के मूल तत्व
3	कोर्स प्रकार	वैल्यू एडेड कोर्स (सीओवीएसी)
4	पूर्व अपेक्षित (यदि हो)	आवश्यकतानुरूप
5	कोर्स लर्निंग आउटकम (CLO)	- निवेश की अवधारणाओं को समझना और भारतीय प्रतिभूति बाजार के माहौल को समझना। - सेयर बाजार की कार्यप्रणाली और सेबी के नियामक ढांचे को समझना। - मौलिक एवं तकनीकी विश्लेषण के अंतर्गत प्रतिभूतियों के विश्लेषण की विभिन्न तकनीकों का वर्णन करें।
6	क्रेडिट महत्व	2 क्रेडिट
7	कुल अंक	अधिकतम पूर्णांक-60 अंक
		उत्तीर्णांक-20
खण्ड-ब: कोर्स की विषयवस्तु		
कुल अध्यापन कालखंड (01 घंटा प्रति कालखंड)-30 कालखंड (30घंटे)		
इकाई	प्रसंग (विषय वस्तु)	कालखंड की संख्या
1	निवेश का परिचय-अर्थ,दायरा और इसके प्रकार,प्राथमिक बाजार-अर्थ, महत्व और इसके साधन,शेयर बाजार में 'सेबी' की भूमिका.	8
2	द्वितीयक बाजार-अर्थ, महत्व और इसके साधन,राष्ट्रीय सुरक्षा डिपॉजिटरी लिमिटेड-परिचय,प्रबंध,लाभ.	7
3	एन.एस.डी.एल. द्वारा उठाए गए सुरक्षा उपाय और दी गई सेवाएँ,डिपॉजिटरी अधिनियम 1996-लाभ,डिपॉजिटरी भागीदार, डीनटेरियलाइजेशन,	8
4	व्युत्पन्न(डेरिवेटिव)-व्युत्पन्न का भविष्य,व्युत्पन्न विकल्प अनुबंध,एफ.डी.आई.-अर्थ,महत्व और प्रकार	7
प्रमुख शब्द	निवेश, सेबी, डिपॉजिटरी अधिनियम 1996, डेरिवेटिव, द्वितीयक बाजार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश.	


हस्ताक्षर-सदस्य एवं संयोजक (केन्द्रीय अध्ययन मंडल):-

10/06/24

Signature of Convener & Members (CBoS):

PART- C: Learning Resources		
Text Books, Reference Books and Others		
Text Books Recommended:-		
1. Dr. V.C. Sinha; SBPD Publishing House, Agra. (Hindi English and Hindi Medium)		
2. Dr. Jai Prakash Mishra, Sahitya Bhawan Publication, Agra. (Hindi and English Medium)		
3. M. L. Jhingan, Vrinda publication, Delhi. (English and Hindi medium)		
4. Dr. J. K. Jain, Madhya Pradesh Hindi Granth Academy: Bhopal. (Hindi medium)		
Note: Learners are advised to use latest edition of text books.		
Reference Books:		
1. Ahuja, H. L New Delhi: Sultan Chand Publishing House, Delhi		
2. Koutsoyannis, A. London: Palgrave Macmillan.		
3. Chaturvedi, D. D., & Gupta, S. L. International Book House Pvt. Ltd. . New Delhi:		
4. Kennedy, M. J., Himalaya Publishing House. Mumbai:		
On line Resources : * e-Resources/e-books and e-learning portals:		
1. https://onlinecourses.swayam2.ac.in/imb24_mg06/preview		
2. https://www.busesseconomics.in/		
3. https://www.wallstreetmojo.com/business-economics/		
4. https://www.youtube.com/playlist?list=PLgC10_Xv-BGirAqOr-hU8e-N_Nz0UpgI-		
5. https://www.youtube.com/watch?v=9kai9P-KeNo		
6. study material of ICAI: www.icaai.org .		
7. https://www.icsi.edu/media/website/Business%20Economic		
8. https://www.busesseconomics.com/		
PART-D: Assessment and Evaluation		
Suggested Continuous Evaluation Methods: Maximum Marks: 100 Marks		
Continuous Internal Assessment (CIA) :		30 Marks
End Semester Exam. (ESE) :		70 Marks
Continuous Internal Assessment(CIA) : (By Course Teacher)	Internal Test/Quiz-(2) : 20 & 20 Assignment/Seminar: 10 Total Marks- 30	Better Marks out of the Two Test/Quiz + obtained marks in Assignment shall be considered against 30 Marks
End Semester Exam.(ESE):	Two Section :- A & B Section A : Q.1-Objective 10x1=10Marks; Q.2.Short answer type-5x4=20Marks Section B : Descriptive answer type qts., 1 out of 2 from each unit-4x10=40 Marks	

Name and Signature of Convener & Members of (CBoS):




चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम(2024-28)

वाणिज्य संकाय

कोर्स कॅरिकुलम

खंड-अ:परिचय			
पाठ्यक्रम: बैचलर इन कॉमर्स (डिप्लोमा/डिग्री/ऑनर्स)		सेमेस्टर-तृतीय	सत्र 2024-25
1	कोर्स कोड	सीओवीएसी-02	
2	कोर्स शीर्षक	स्कंध बाजार के मूल तत्व	
3	कोर्स प्रकार	वैल्यू एडेड कोर्स (सीओवीएसी)	
4	पूर्व अपेक्षित (यदि हो)	आवश्यकतानुरूप	
5	कोर्स लर्निंग आउटकम (CLO)	- निवेश की अवधारणाओं को समझना और भारतीय प्रतिभूति बाजार के माहौल को समझें। - शेयर बाजार की कार्यप्रणाली और सेबी के नियामक ढांचे को समझें। - मौलिक एवं तकनीकी विश्लेषण के अंतर्गत प्रतिभूतियों के विश्लेषण की विभिन्न तकनीकों का वर्णन करें।	
6	क्रेडिट महत्व	2 क्रेडिट	क्रेडिट=15घंटे का अध्ययन/प्रशिक्षण/प्रवेक्षण
7	कुल अंक	अधिकतम पूर्णांक-50 अंक	उत्तीर्णांक-20
खण्ड-ब: कोर्स की विषयवस्तु			
कुल अध्यापन कालखंड (01 घंटा प्रति कालखंड)-30 कालखंड (30घंटे)			
इकाई	प्रसंग (विषय वस्तु)		कालखंड की संख्या
1	निवेश का परिचय-अर्थ,दायरा और इसके प्रकार,प्राथमिक बाजार-अर्थ, महत्व और इसके साधन,शेयर बाजार में 'सेबी' की भूमिका.		8
2	द्वितीयक बाजार-अर्थ, महत्व और इसके साधन,राष्ट्रीय सुरक्षा डिपॉजिटरी लिमिटेड-परिचय,प्रबंध,लाभ.		7
3	एन.एस.डी.एल. द्वारा उठाए गए सुरक्षा उपाय और दी गई सेवाएँ,डिपॉजिटरी अधिनियम 1996-लाभ,डिपॉजिटरी भागीदार, डीमटेरियलाइजेशन,		8
4	व्युत्पन्न(डेरिवेटिव)-व्युत्पन्न का भविष्य,व्युत्पन्न विकल्प अनुबंध,एफ.डी.आई.-अर्थ,महत्व और प्रकार		7
प्रमुख शब्द	निवेश, सेबी, डिपॉजिटरी अधिनियम 1996, डेरिवेटिव, द्वितीयक बाजार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश.		

हस्ताक्षर-सदस्य एवं संयोजक (केन्द्रीय अध्ययन मंडल):-



 10/06/24

खंड-स: अध्ययन स्त्रोत/साधन

पाठ्यपुस्तक,संदर्भग्रंथ एवं अन्य

अनुशंसित ग्रंथ:-

- डॉ. अग्रवाल एवं कुमार, एसबीपीडी पब्लिशिंग हाउस, आगरा :हिन्दी माध्यम.
- प्रो.वी.पी.अग्रवाल, साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा :हिन्दी माध्यम.
- डॉ. बिमल जयसवाल एवं बी. वेंकटरमण, साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा :अंग्रेजी.
- डॉ.आई.एम.सहाय, एसबीपीडी पब्लिशिंग हाउस, आगरा :अंग्रेजी माध्यम.

संदर्भग्रंथ:-

- जैक बोगल द्वारा लिखित सामान्य ज्ञान निवेश की छोटी पुस्तक.
- बर्टन जी द्वारा वॉल स्ट्रीट पर एक यादचिह्नक सैर, मल्कीएल
- रॉबर्ट जी द्वारा वॉरेन बुफे तरीका, हैगस्ट्रॉम

नोट:- शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तकों के नवीनतम संस्करण का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

ऑनलाईन स्त्रोत:- ई-स्त्रोत/ई-पुस्तक/ई-पोर्टल:

<http://www.nseindia.com/>

<http://www.economictimes.indiatimes.com/markets>

<http://www.investing.com/>

<http://www.screener.in/>

<http://www.moneycontrol.com/>

खंड-द: आंकलन और मूल्यांकन

अनुशंसित सतत् मूल्यांकन प्रविधि:

पूर्णांक – 50 अंक	सुझाई गई सतत मूल्यांकन विधियाँ: अधिकतम अंक 50 अंक		
	सतत आंतरिक मूल्यांकन (सीआईए):		15 अंक
	अंतिम सेमेस्टर परीक्षा (ईएसई) :		35 अंक
सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIA): (कोर्स शिक्षक द्वारा)	आंतरिक परीक्षण/प्रश्नोत्तरी (2):	10 एवं 10	दो टेस्ट/क्विज़ में से उच्चतम अंक
	असाइनमेंट/सेमिनार+उपस्थिति –	05	प्राप्त अंक असाइनमेंट को 15 अंकों में से माना जाएगा
	कुल अंक:	15	
अंत सेमेस्टर परीक्षा: (ESE)	दो खंड: ए और बी		
	अनुभाग ए- प्रश्न 1.वस्तुनिष्ठ प्रकार-05X1=5 अंक, प्रश्न-2.लघुउत्तर प्रकार.5X2=10 अंक.		
	अनुभाग बी- वर्णनात्मक प्रकार प्रश्न- प्रत्येक इकाई से 2 में से 1=4X5=20 अंक		

हस्ताक्षर-सदस्य एवं संयोजक (केन्द्रीय अध्ययन मंडल):-

(Handwritten signatures and dates)
10/06/24
10/06/24
10/06/24
10/06/24
10/06/24
10/06/24

FOUR YEAR UNDERGRADUATE PROGRAM-2024-28

FACULTY OF COMMERCE COURSE CURRICULUM

PART-A : Introduction			
Program: Bachelor in Commerce (Diploma/Degree/Honors)		Semester- III	Session: 2024-25
1	Course Code	COVAC-02	
2	Course Title	Fundamental of Stock Market	
3	Course Type	Value Added Course (COVAC)	
4	Pre-requisite (if any)	As per program	
5	Course Learning Outcomes (CLO)	- Explain the concepts of investment and understand the Indian securities market environment. - Understand the modus operandi of Stock market and regulatory framework of SEBI. - Describe various techniques of analyzing securities under fundamental and technical analysis.	
6	Course Credits	2 Credits	Credit = 15 Hours-learning & Observation
7	Total Marks	Max. Marks : 50	Minimum Passing Marks : 20
PART- B: Content of the Course			
Total No. of Teaching-learning Periods (01 Hr. Per Period)-30 Periods (30Hours)			
Unit	Topics (Course Contents)		No. of Period
I	Introduction of Investment- meaning, scope, and its types. Primary Market – meaning, importance, and its instrument, the role of SEBI in the stock market.		8
II	Secondary Market- meaning, importance, and its instruments. National Security Depository Limited- Introduction,Management, benefits.		7
III	Safety measures taken by NSDL, Services offered, Depository Act 1996- benefits, depository participant, dematerialization,		8
IV	Derivative - Derivative Future, Contract, Derivative Option Contract. FDI- meaning, importance, and its types.		7
Key Words	Investment, SEBI, Depository Act 1996, Derivative, Secondary Market. Foreign Direct Investment.		

Signature of Convener & Members (CBoS):

The block contains several handwritten signatures in black ink. Some signatures are accompanied by dates: '25/10/24' and '10/06/24'. The signatures are written in a cursive, stylized manner.

PART- C: Learning Resources**Text Books, Reference Books and Others****Text Books Recommended: -**

- Dr. Agrawal & Kumar, SBPD Publishing House, Agra (Hindi Medium)
- Prof. V. P. Agrawal, Sahitya Bhawan Publications, Agra (Hindi Medium)
- Dr. Bimal Jaiswal & B. Venkatraman, Sahitya Bhawan Publications, Agra (English)
- Dr. I. M. Sahai, SBPD Publishing House, Agra (English Medium)

REFERENCE BOOKS:

- The little book of common sense investing by Jack Bogle
- A random walk down wall street by Burton g. Malkiel
- The warren buffet way by Robert g. Hagstrom

Note: learners are advised to use latest edition of text books.

On line Resources : * e-Resources/e-books and e-learning portals:

1. The Psychology of Money
2. The Intelligent Investor
3. One Up on Wall Street
4. The Little Book That Still Beats the Market
5. Common Stocks and Uncommon Profits

E-Links

<http://www.nseindia.com/>

<http://www.economictimes.indiatimes.com/markets>

<http://www.investing.com/>

<http://www.screener.in/>

<http://www.moneycontrol.com/>

PART- D : Assessment and Evaluation


Suggested Continuous Evaluation Methods: Maximum Marks 50 Marks

Continuous Internal Assessment (CIA) : 15 Marks

End Semester Exam. (ESE) : 35 Marks

Continuous Internal Assessment: (CIA): (By Course Teacher)	Internal Test/Quiz:	10 & 10	Better marks out of the Two Test/Quiz +obtained marks Assignment shall be considered against 15Marks
	Assignment/Seminar+		
	Attendance	05	
	Total Marks	15	
End Semester Exam.(ESE):	Two Section :- A & B SectionA :Q.1-Objective -05x1=5Marks;Q.2-Short answer type-5x2=10Marks Section B :Descriptive type qts.,1 out of 2 from each unit=4x5=20Marks		

Name and Signature of Convener & Members of BoS :



 10/06/24
 10/06/24
 10/06/24
 10/06/24
 10/06/24
 10/06/24

FACULTY OF COMMERCE COURSE CURRICULUM

PART-B: Content of the Course

Unit	Topics (Course Contents)	No. of Period
I	Banking System in India, Origin of Banking, Origin and Growth of Commercial Bank in India, Banking Regulation Act: 1949, RBI Act, Types of Banks, Types of Deposits.	8
II	Operational Aspect of commercial banks in India, Relationship between Banker and customers,	7
III	Types of customer accounts, Know Your Customer, Procedure of Opening Bank Account, Endorsement and Lending.	8
IV	E-banking services- Paying Bank, Internet Banking, Mobile Banking.	7
Key Words	Banking System, RBI, Banker and Customer Relationship, Internet Banking, Mobile Banking, Lending.	

Signature of Convener & Members (CBoS):

10/06/24

Handwritten signatures of the four authors: R. A. Sharps, B. J. G. S. and S. D.

Text Books, Reference Books and Others:

- Banking and Negotiable Instruments by Avtar Singh
- Banking Operations by Prof. Bimal Jaiswal, Dr. Leena S. Shimpi SBPD, Publiging, Agra
- Business Finance By Dr. S.P. Gupta, SBPD Publiging, Agra

Dr. Uma Rani Pm, B. K. Dey Dr. R.S. Mishra Dr. P. Choudhary, Banking Principles And Practice, SIPH

- <https://app1.unipune.ac.in/external/course-material/Fundamental-of-Banking-English.pdf>
- https://macmillaneducation.in/wp-content/uploads/2023/02/IIBF_Brochure-New-2023.pdf
- https://icmai.in/upload/BI/BFSI_CHRONICLE_13th_EDITION.pdf
- https://cbseacademic.nic.in/web_material/Curriculum21/publication/secondary/411%20Banking_and_Insurance_X.pdf

Suggested Continuous Evaluation Methods: Maximum Marks	50 Marks
Continuous Internal Assessment (CIA) :	15 Marks
End Semester Exam. (ESE) :	35 Marks

Continuous Internal Assessment: (CIA) (By Course Teacher)	Internal Test/Quiz: 10 & 10 Assignment+Seminar+Attendance: 05 Total Marks: 15	Highest marks out of the two Test/Quiz+ obtained marks in Assignment shall be considered against 15 Marks
End Semester Exam.(ESE):	Laboratory/Field Skill Performance: On Spot Assessment A-Performed the Task based on Learned Skill- 20Marks B-Spotting based on tools(Written)- 10Marks C-Viva-Voce(based on Principle/technology)- 05Marks	Managed by Coordinator as per skilling

Name and Signature of Convener & Members of (CBoS) :

ner & Members of (CBoS) :